



Supplementary-Deed

This Supplementary-Deed is in addition to the Partnership Deed of Kalyan Construction executed on 30th December-1995.

Whereas the partner Shri Suresh Chand Sharma referred as 1st party in the original deed is having a land khasra no.75,76,77,78 situated at Village Nagla Kali, Tehsil Sadar, District Agra, having 2.4560 Hectares is hereby agree to bring such land as stock in trade in the firm Kalyan Construction at an agreed price of Rs 639300/- in the form of its capital share and the first party will have no personal interest in such land from the date of execution of this Supplementary-Deed..

In witness whereof the parties after understanding contents of the supplementary deed, have signed this deed on 27.08.1996.

S Sharma

कमलेश

20322
27-8-1996

21221-1-5 32 20 241 5 214
F-10111 - 11111 11111
11111

Dr. Singh Oberoi
Stamp Vendor,
Civil Court, AGRA



उद्धरण खतौनी

क्रमांक : 08010101805

ग्राम का नाम : बगला काली

परगना आगरा

शहसिल : आगरा

रद : आगरा

काली वर्ष : 1419-1424

भाग : 1

नं० ग्रामदार 92 नाम
नाम
संख्या

किता / धरि /
गिरफ्तार का नाम

निवास स्थान

भौतिक अधिपक्षर
प्रारम्भ होने पर
काली वर्ष

छात्र के प्रत्येक
गिरफ्तारी पर
संख्या

प्रत्येक
गिरफ्तारी
क्षेत्रफल
(हे.)

ग्रामदार
ग्राम देव
मालपुजारी
का लगान

ग्रामदार सभाद्वारा आता या
उत्तरक संतराया उनकी शक्ति न या
द्वितीयक शक्ति और आता देने
काले अधिपक्षरी का पर

1 2 3 4 5 6 7-12 13

नं० 1-क पूर्व जो संकलनीय पूर्वियों के अधिपक्षर से हो।

99 गिरफ्तार

शहसिल

दि. ग्राम

1400 फी	66	0.2480
1400 फी	75	2.0360
1400 फी	76	0.0600
1400 फी	77	0.0500
1400 फी	78	0.3000
1400 फी	105	0.0120
1400 फी	109	0.0270
कुल गिरफ्तारी :	7	कुल क्षेत्र :
		2.7330
		72.40



न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।
वाद सं० 58/12-13
सुरेशचन्द्र बनाम

उ०प्र० सरकार
अ०धारा-143 उ०प्र० ज० वि० एवं भू० व्य० अधि०
मीजा- नगला कली
तह० व जिला- आगरा

फाया फील नकल आदेश दि० 16/11/12

प्रार्थी सुरेश चन्द्र पुत्र श्यामप्रसाद नि० ग्राम नगलाकली, आगरा द्वारा मीजा नगलाकली स्थित भूमि खाता सं० 99 गाटा सं० 75 रकबा 2.0360 हे०, गाटा सं० 76 रकबा 0.0600 हे०, गाटा सं० 77 रकबा 0.0500 हे०, गाटा सं० 78 रकबा 0.3000 हे० कुल 4 किता रकबा 2.4460 हे० भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल, ना० तहसीलदार, बरीली अहीर से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दि० 06.10.12 पर अपनी स्थलीय निरीक्षण संस्तुति सहित आख्या दि० 10.10.12 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत गाटा सं० 75/2.0360 हे०, 76/0.0600 हे०, 77/0.0500 हे०, 78/0.3000 हे० कुल 4 किता रकबा 2.4460 हे० लगान 64.80 पर सुरेश चन्द्र पुत्र श्यामप्रसाद नि० ग्राम नगलाकली का नाम बर्तौर सं० भू० राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज है स्थल पर कृषि व दाखिल है। प्रश्नगत गाटा संख्या में कृषि, उधानीकरण, पशुपालन, मत्स्यसम्बर्द्धन एवं कुक्कुटपालन आदि का कार्य नही हो रहा है। आबादी का प्रयोग हो रहा है, सड़क आदि पड़ी, मकान आदि बनाये जा रहे हैं। प्रश्नगत गाटा संख्या पट्टे की नहीं है, सरकारी भूमि नहीं है। सार्वजनिक प्रयोग में नहीं है, जैसे तालाब, पोखर, कब्रिस्तान, चारागाह नहीं है। न ही भूमि नजूल एवं राजकीय स्थान की है। तथा उक्त भूमे ग्राम सभा की भूमि की सीमा का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या किसी भी प्रस्तावित योजना में अधिगत नहीं है। प्रश्नगत गाटा संख्या में वर्तमान में 1420 फ० में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या के खातेदार अनु० जाति के सदस्य नहीं है। प्रश्नगत गाटा को लेकर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही राजस्व अभिलेखों में कोई अनलदरामद है। अतः मीजा नगलाकली की खाता सं० 99 गाटा सं० 75/2.0360 हे०, 76/0.0600 हे०, 77/0.0500 हे०, 78/0.3000 हे० कुल 4 किता रकबा 2.4460 हे० लगान 64.80 को उ०प्र० वि० एवं भू० व्य० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना, जिसे क्षेत्रीय लेखपाल, ना० तहसीलदार, तहसीलदार सदर आगरा द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा, जिसमें प्रश्नगत भूमि लाल रंग-नाई से प्रदर्शित है, को क्षेत्रीय लेखपाल ना० तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया है। नकल खतौनी सन् 1419 फ०-1424 फ० में प्रार्थी का नाम सं० भू० के रूप में अंकित है। नकल खसरा सन् 1419 फ०, 1420 फ० तथा प्रार्थी का शपथपत्र व स्थलीय फोटोग्राफ भी संलग्न कर भेजे हैं। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, मुर्गीपालन, पशुप्रजनन आदि कार्य के उपयोग में नहीं आ रही है व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथ पत्र व फोटोग्राफ से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि के खाता सं० 99 गाटा सं० 75 रकबा 2.0360 हे०, गाटा सं० 76 रकबा 0.0600 हे०, गाटा सं० 77 रकबा 0.0500 हे०, गाटा सं० 78 रकबा 0.3000 हे० कुल 4 किता रकबा 2.4460 हे० मा० गु० 64.80 पे, धारा 143 उ०प्र० ज० वि० एवं भू० व्य० अधि० के संपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेंगे। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली वाद आ० कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

वाक्या वचन
1-वा० पत्र प्राप्ति का दिनांक 16/11/12
2-प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द्र
3-नोमस म्दाम सुरेश चन्द्र
4-नकल आगे करने का कार्य निरूपित
5-संख्या 30 लक्ष
6-मेगापी का दिनांक 16/11/12
7-वा० पत्र प्राप्ति का दिनांक 16/11/12

TRUE COPY
For Presiding Officer
Date 16/11/12

(राजेश कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा।

कलाकृत्य चित्रण का नाम
कलाकृत्य
कला संख्या

दिनांक / वर्ष /
संशोधक का नाम

पृष्ठ - 1

भौतिक अभिलेख प्रमाण
कोपी का प्रकार/वर्ग

आलेख के प्रकार
आलेख की प्रमाण

आलेख का
आलेख

आलेख का
आलेख

आलेख का प्रकार
आलेख का प्रकार

दिनांक

3

4

5

6

7-12

13

1400 का
1400 का

105 से
109 से

0.0120
0.0270

पूरा मापः

7

पूरा से: 2.7530

72.80

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार

1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013

संग्रहित मापक

मापक का नाम

मापक का प्रकार


1400 का

105 से

0.0120

72.80

00013



Handwritten notes and signatures in Hindi, including dates like 11-3-2020 and 11-3-2020.

नकल कर्ता
नकल कर्ता

TRUE-COPY

Handwritten signature and text.

Handwritten signature and text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

ग्राम क्रमांक : 08010101805 ग्राम का नाम : नगला कर्ली

पृष्ठ - 1

खाना खानेदार का नाम
खानेदार
कर्म संख्या

फिरा / खिर /
संरक्षक का नाम

निवास स्थान

पौमिक अधिकार प्राप्त
होने का प्रमाण

छात्र के प्रत्येक
गोटे की खसरा
संख्या

प्रत्येक
गोटे का
क्षेत्रफल
(हे.)

खानेदार
द्वारा देव
सालगुजारी
का नाम

परिवर्तन प्रमाणों आता या आता
नहीं होता
संरक्षण प्रमाणों आता या नहीं आता
और आता है
काने अधिकारी का हस्ताक्षर

7-12

1 2 3 4 5 6

1400 रु0

1400 रु0

105 रु

109 रु

0.012

0.027

62.40

7

2.733

62.40

163

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

1

0.213

3.70

नि. कर्मचारी
(नाम)

1400 रु0

163

0.213

3.70

1000 2000 3000 4000 5000

1042-601510

नाइफ़ा

3-11-2021

Harsh

12/01/2024

श्री - एक को - 2 दि

श्री श्री कृष्णार्जुन गीताः

152 153

विषयः २०००

EX - 803X6

9/5/96

100%

31 May 1968

सत्य प्रतिलिपि

12-7-13

सुप्रसन्नानां प्रियं ।

1

453 0.2822

09-23

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

१५/११/२०२०

History

4

1

सं. ३३३३३३३३

10

2/16/05

193



PARTNERSHIP DEED

This Deed of Partnership has been executed on 30th December 1995 Between:-

1. Shri Suresh Chandra Sharma, s/o. Late Sheon Prashad, aged about 37 year old, R/o. Village Nagla Kali, District Agra, hereinafter called the Ist PARTY.
2. Smt. Kamlesh, w/o. Shri Suresh Chandra Sharma, aged about 35 year old, R/o. Village Nagla Kali, District Agra, hereinafter called the IInd PARTY.

AND WHEREAS both the parties hereto have joined their hands to carry the business as builder, developer, contractor, real estate agent etc. or any other business or services incidental or ancillary related to the construction business or any other business or businesses which the partner's may mutually decide to conduct and carry on from time to time in partnership under the name and style of KALYAN CONSTRUCTION.

Contd. on page (2)...

Seshamma

कामलेश

4021
27-12-95

4021
27-12-95

50) सुरेश चंड जी ~~अपने~~ प्रभात निवृत्ति नमस्कार

Stamp Vendor,
Small Business Act



- 2 -

WHEREAS this deed is being executed to enumerate the terms and conditions settled in among the parties to this deed in writing.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS UNDER:-

1. NAME OF THE FIRM: That business shall be conducted and carried under the name & style of KALYAN CONSTRUCTION.
2. PRINCIPAL PLACE: That the principal place of business of the firm shall be at NAGLA KALI, DISTRICT AGRA (U.P.). The partner shall be at liberty to open any branch or branches at any other place or places.
3. THAT the nature of business of the partnership firm shall be to carry the business as builders, developers, contractors, real estate agent etc. or any other business or businesses which the partners may decide and agree to commence with mutual consent.
4. FINANCIAL YEAR: That on 31st March each year the partnership books of account shall be closed and the profit or

Gestharma

Contd. on page (3)...

कमलेश

4022
27-12-95 (100)

સુરેશ - વરા 810.20 માં ગ્રાંડ રિવર્સ 1 બેલોન

સામલ
શ્રી શ્રી
સુરેશ વરા
સુરેશ વરા
સુરેશ વરા



- 3 -

losses of the partnership business for the year or for the period for which the books shall be drawn up.

5. SHARE: That the partners shall be entitled to share profits and liable for losses of the partnership business (including loss of capital shall be divided among the partners) as under:
- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. Shri Suresh Chandra Sharma | 50% |
| 2. Smt. Kamlesh | 50% |
6. CAPITAL: All the partners contribute capital as per the requirement and need of the firm.
7. POWER: That it is expressly decided between the parties that all the business of the firm shall be jointly done by the parties. Executing of any agreements or major decisions taken by the firm will be done jointly under the signatures of both the partners.
8. BANK ACCOUNT: The Bank account shall be opened in the name of the firm and shall be operated by either of the one with the mutual consent.

Sesharma

कमलेश

Contd. on page (4)...

ank

4023
27-12-95

(100)

કુરેશી નં-3 સ/કાગર ખાતે બિલાઈ - ગાલાંતી
ગાલાંતી

Adi
My Stamp Station
Stamp Vendor,
Kali Bazar, AGM



- 4 -

9. That the partnership firm shall pay interest @ 12% p.a. or at the rates, as may be prescribed under the Income Tax Act 1961 from time to time on the credit balance of the partners and shall be credited at the end of the relevant accounting year, out of which they shall be entitled to withdraw the money during the year from time to time in addition to their other usual withdrawals as per mutual consent. The parties may decide to charges interest @ Nil or at lower rate than 12% in case of Lower profit or even otherwise as they deem it fit and proper. In case of loss it may also decide not to give any interest, in case of debit balance the interest may be charged accordingly. In this matter entries made in the books of accounts of the firm shall be exclusive evidence of the intention of the partners and shall be deemed to have made as per terms of the partnership deed.
10. That both the parties are working partners therefore all the parties can/shall charge salary as permissible under the provision of section 40(b) of the Income Tax Act 1961, restricted to the amount of profit of the

Seshanna

Contd. on page (5)...

कमलेश

4024
22-12-85 87

उद्देश - पर स/प्रमाणित युद्ध निवृत्ति - राजा अर्जुन
मोगम

withdraw


Arjun Singh
Stamp Vendor,
Nall Market, A.O.S.

firm. The parties will be at liberty to withdraw the same either monthly or annually or otherwise as they deem fit. That the aggregate amount of remuneration payable to working partners will be the maximum amount allowable as deduction under the provision of the Income Tax Act, 1961. The said remuneration shall be distributed as per the profit sharing ratio among the partners.

On the First Book Profit 90% of book profit of Rs. 75000/- or in case of Rs. 50000/- whichever is loss. more.

On the next Rs. 75000/- at the rate of 60% of book profit.

On the balance of book at the rate of 40% profit.

The partners shall be entitled to increase or reduce the above remuneration by executing a supplementary partnership deed. They may also revise the mode of calculating the above said remuneration as may be agreed to by and between the partners from time to time.

11. DUTIES: That no partner can sell mortgage assign or in any way transfer any property movable or immovable of the firm or raise loans in the name of the firm for the personal gains or benefits.

12. The firm can borrow money/accepted deposits from bank

Seshanna.

Contd. on page (6)...

समलेश

financial institutions and any other parties on interest or without any interest or any other terms as may decide at that time. The cost of raising this finance shall be borne by the firm exclusively. This firm shall not be responsible in any case for any loan/losses taken or occur by the partners in their individual/joint capacity or by the partners individually or jointly in any other firm/Co.

13. RETIREMENT/DEATH; The no partner shall be entitled to press for the dissolution of the firm. If at time a partner desire to retire from the partnership business then he or she shall be allowed to retire with consent of the other partners. In case of death of a partner the firm shall not stand dissolved ipso-facto but the firm shall be continued as mutually decided by the remaining partners with or without the legal heir(s) of the deceased partner. The retiring partner/heirs of the deceased partner shall be paid the capital of the said partner and accumulated profits of with the firm but they shall not be entitled for any goodwill or appreciation in the value of the properties of the firm.
14. That the first and second party shall have the first right of stopping the business affairs of the firm in case of non-payment of more than three continuing installment of bank finance to recover the amounts due to any banks, financial institutions, from the assets of the firm introducing additional capital by

Contd. on page (7)...

Seshanna

कमलेश

partners, either directly or by sell the same for their (banks etc.) repayment only.

15. THAT the Goodwill of the partnership concern shall be the property of the firm, and no retiring partner or legal representative of a deceased partner shall be entitled to pay any claim in respect of the same. The retiring partner or legal heir of deceased partner shall be paid the balance lying to his/her credit as per the mutual agreement.
16. THAT the partnership firm shall not be responsible for any individual loan, liability or encumbrance of any of the partners.
17. THAT the partners of the firm shall be bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, shall be just and faithful to each other, and shall also render to them accounts and full information of all things affecting to the firm to the other partner or representatives as the case may be.
18. THAT the partners shall indemnify the firm to any loss caused to it by his gross negligence or fraud in the conduct of business of the firm out of his own account or personally, as the case may be.
19. THAT the partners shall be entitled to modify the above terms by executing a supplementary deed(s) and such deed(s) when executed shall have effect unless otherwise provided, from the first day of accounting

Seshamma

Contd. on page (8)...

कमलेश

period in which such supplementary deed(s) is executed and the same will form part of this deed of partnership.



20. ARBITRATION: That in case of any dispute arising during the currency of this partnership or afterwards or in regard to interoperation of the terms and conditions of this deed and in general relating to any matter in regard to this partnership business the same shall be referred to a sole Arbitrator to be mutually appointed by the partners and shall be governed by the provision of the Indian Arbitration Act.



21. THAT the provisions of the Indian partnership Act shall be applicable to this partnership unless they are repugnant to the context and the express terms and conditions contained in this Deed.

IN WITNESS WHEREOF, the parties after understanding the contents of this Deed, have signed this Deed of Partnership on this day of 30th day of December 1995.

Witnesses:

Signature's of the parties:

1. Signature 
Name DAU DAYAL RAWAT
S/o. Late Shri. Bansi Lal Rawat
R/o. Vill- KANARAI, AGRA
2. Signature 
Name Smt. Kamlesh
S/o. Shri. Bansi Chandra Rawat
R/o. 131, Panchsheel Park
New Delhi
Agra

1. 
(Suresh Chandra Sharma)
2. 
(Smt. Kamlesh)